

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

यमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3

PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 1968/चैत्र 12, 1890
 No. 1] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 1968/CHAITRA 12, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March 1968

No. 1-E, dated 29th Mar. 1968.—In pursuance of Clause fifthly of Notification No. 15-Pres/67, dated the 26th January 1967, as amended by Corrigendum No. 33-Pres/67, dated 29th April 1967, and Notification No. 19-Pres/68, dated 11th March 1968, specifying the conditions of eligibility for the award of "Sumar Seva Star 1965", Government have decided to specify the following qualifying areas and battle zones :—

[Refers to Map INDIA and Adjacent Countries (4th Edition) (40 miles) and Map Sheets 78F (ASSAM, BHUTAN, EAST PAKISTAN and WEST BENGAL) and 83D (ASSAM, EAST PAKISTAN, MANIPUR and TRIPURA) (4 inches to 1 mile).]

(a) *Qualifying Areas for Army*

- (1) Areas WEST of line alongside Longitude 77 degree EAST starting from a point on international border of JAMMU and KASHMIR State to an opposite point on its border with HIMACHAL PRADESH (but excluding KHALSI Transit Camp and areas Eastward upto Longitude

77 degree EAST) and thence along boundary of JAMMU and KASHMIR State upto and including PATHANKOT—5th August 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).

- (ii) Areas WEST of line joining DALHOUSIE—PALAMPUR—MANDI—BILASPUR—KALKA—AMBALA—PATIALA—SIRSA—HANUMAN-GARH—SURATGARH—ANUPGARH—BIKANER—JODHPUR—SIROHI—MOUNT ABU and including these stations—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).
- (iii) Areas WEST of line joining MOUNT ABU to AHMEDABAD and areas NORTH of line joining AHMEDABAD to JAMNAGAR and including these stations—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).
- (iv) Areas GITALDAH (LZ 4305) and LATHI TILLA (RH 5024) and including these stations—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).
- (v) Airfields at AGRA, PALAM, HINDON, BAREILLY, SARSAWA, BARRACKPORE, BAGDOGRA, KALAIKUNDA, HASIMARA and BORJAR (GAUHATI) and the operational air defence installations in and around JAIPUR, RAMPURHAT, KALAIKUNDA, BAGDOGRA, JAFFARPORE and DELHI (for those of the Army personnel engaged in providing signal cover and in the defence of the above airfields and air defence installations)—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).

(b) *Battle zones for Army*

- (i) Areas WEST of line alongside Longitude 77 degree EAST starting from a point on international border of JAMMU and KASHMIR State to an opposite point on its border with HIMACHAL PRADESH (but excluding KHALSI Transit Camp and area Eastward upto Longitude 77 degree EAST) and thence along boundary of JAMMU and KASHMIR State upto and including PATHANKOT—5th August 1965 to 23rd September 1965 (both days inclusive).
- (ii) Areas WEST of line joining PATHANKOT—GURDASPUR—BATALA—KAPURTHALA—FEROZPUR—BHATINDA including these stations—upto inter-State boundary PUNJAB/RAJASTHAN and then to HANUMANGARH—SURATGARH and excluding these stations—6th September 1965 to 23rd September 1965 (both days inclusive).
- (iii) Areas WEST of line joining HANUMANGARH—SURATGARH—ANUPGARH—BIKANER (excluding these stations) and thence along road to KOLAYAT—PHALODI—POKARAN—JAISALMER—BARMER—SANCHOR (including these stations) upto inter-State boundary RAJASTHAN/GUJARAT—6th September 1965 to 2nd December 1965 (both days inclusive).

(c) *Qualifying Areas for Navy*

- (i) *For ships and aircraft.*—To Arabian Sea area between the latitude of 15 degree and 25 degree North and Longitude of 60 degree and 74 degree East—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).
- (ii) *For shore based personnel.*—Qualifying areas prescribed for the Army and the Air Force and during the dates prescribed for these two Services.
- (iii) Naval personnel attached to the Army or the Air Force shall be eligible for the award according to the conditions of eligibility applicable to the Service to which they were attached.

(d) *Qualifying Areas for Air Force*

- (i) Areas WEST of line alongside Longitude 77 degree EAST starting from a point on international border of JAMMU and KASHMIR State to an opposite point on its border with HIMACHAL PRADESH (but excluding KHALSI Transit Camp and areas Eastward upto Longitude 77 degree EAST) and thence along boundary of JAMMU and KASHMIR State upto and including PATHANKOT—5th August 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).

- (ii) Areas WEST of line joining DALHOUSIE—PALAMPUR—MANDI—BILASPUR—KALKA—AMBALA—PATIALA—SIRSA — HANUMAN-GARH — SURATGARH — ANUPGARH — BIKANER — JODHPUR — SIROHI—MOUNT ABU and including these stations—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).
- (iii) Areas WEST of line joining MOUNT ABU to AHMEDABAD and areas NORTH of line joining AHMEDABAD to JAMNAGAR and including these stations—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).
- (iv) Areas GITALDAH (LZ 4305) and LATHI TILLA (RH 5024) and including these stations—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).
- (v) Airfields at AGRA, PALAM, HINDON, BAREILLY, SARSAWA, BARRACKPORE, BAGDOGRA, KALAIKUNDA, HASIMARA and GAUHATI and the operational air defence units in and around JAIPUR, RAMPURHAT, KALAIKUNDA, BAGDOGRA, JAFFARPORE and DELHI—6th September 1965 to 25th January 1966 (both days inclusive).

(e) *Battle zones for Air Force*

- (i) Areas WEST of line alongside Longitude 77 degree EAST starting from a point on international border of JAMMU and KASHMIR State to an opposite point on its border with HIMACHAL PRADESH (but excluding KHALSI Transit Camp and areas Eastward upto Longitude 77 degree EAST) and thence along boundary of JAMMU and KASHMIR State up to and including PATHANKOT—5th August 1965 to 23rd September 1965 (both days inclusive).
- (ii) Areas WEST of line joining PATHANKOT—GURDASPUR—BATALA—KAPURTHALA—FEROZEPUR—BHATINDA including these stations—upto inter-State boundary PUNJAB/RAJASTHAN and then to HANUMANGARH—SURATGARH and excluding these stations—6th September 1965 to 23rd September 1965 (both days inclusive).
- (iii) Areas WEST of line joining HANUMANGARH—SURATGARH—ANUPGARH—BIKANER (excluding these stations) and thence along road to KOLAYAT—PHALODI—POKARAN—JAISALMER—BARMER—ANCHOR (including these stations) up to inter-State boundary RAJASTHAN/GUJARAT—6th September 1965 to 2nd December 1965 (both days inclusive).

(f) *Qualifying areas and Battle zones for civilians of either sex in all walks of life.*—The qualifying areas and the battle zones for civilians will be the same as specified above in respect of the personnel of the Army, the Navy and the Air Force.

[No. F. PC. F. 3/40/65/D(Cer).]

N. D. BUCH, Jt. Secy.

रक्षा मन्त्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च 1968

शुद्धि पत्र संख्या 38-प्रेज/67 दिनांक 29 अप्रैल, 1967 और अधिसूचना संख्या 19-प्रेज/68 दिनांक 11 मार्च 1968 द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या 15-प्रेज/67 दिनांक 26 जनवरी,

1967, जिसके अन्तर्गत “ममर सेवा स्टार 1965” पदक की पात्रता की शर्तें दी हुई हैं, के पंचम खंड के अनुसरण में सरकार ने निम्नांकित पात्रता क्षेत्र तथा युद्ध खंडों को उल्लिखित करने का निर्णय किया है:—

[संदर्भ मानचित्र भारत तथा निकटवर्ती देश (चीथा संस्करण) (40 मील) तथा मानचित्र शीट 78 ऐफ (आसाम, भूटान, पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल) तथा 83 डी (आसाम, पूर्वी पाकिस्तान, मणिपुर और त्रिपुरा) (4 इंच-1 मील)]

(क) अथ सेना के लिये पात्रता क्षेत्र

(i) 77 डिग्री पूर्व देशान्तर के साथ रेखा के पश्चिम के क्षेत्र जो जम्मू तथा कश्मीर राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सीमा तक (इसमें खालसी ट्रांजिट कैम्प तथा पूर्व की ओर 77 डिग्री पूर्व देशान्तर रेखा तक के क्षेत्र सम्मिलित नहीं होंगे) और उसके बाद जम्मू तथा कश्मीर की हद्द के साथ-साथ पठानकोट तक होगी इसमें पठानकोट भी सम्मिलित होगा—5 अगस्त 1965 से 25 जनवरी 1966 तक (दोनों दिन समेत)

(ii) डलहौजी, पालमपुर, मंड़ी, विलासपुर, कालका, अम्बाला, पटियाला, सिरसा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्रीफोनर, जोधपुर, सिरसेही, माउंट आबू को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र उपरोक्त स्थानों समेत—6 सितम्बर 1965 से 25 जनवरी 1966 तक (दोनों दिन समेत)

(iii) माउंट आबू को अहमदाबाद से जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र और अहमदाबाद को जामनगर से जोड़ने वाली रेखा के उत्तर के क्षेत्र उपरोक्त स्थानों समेत—6 सितम्बर 1965 से 25 जनवरी 1966 तक (दोनों दिन समेत)

(iv) गीतलदाह (ऐल जेड 4305) और लाठी टीसा (आर एन 5024) के क्षेत्र, इन स्थानों समेत—6 सितम्बर 1965 से 25 जनवरी 1966 तक (दोनों दिन समेत)

(v) आगरा, पालम, हिन्डन, बरेली, सरसावा, बैरकपुर, बागडोगरा, क्लार्कंडा, हासीमारा और बोरजार (गोहाटी) के हवाई अड्डे और जयपुर, रामपुरहट, क्लार्कंडा, जफरपुर तथा दिल्ली में और इर्द-गिर्द सक्रियात्मक वायु रक्षा संस्थान (उन सैनिकों के लिए जो संकेत सेवा (सिग्नल कवर) तथा उपरोक्त हवाई अड्डों और वायु रक्षा संस्थानों की रक्षा कर रहे थे)—6 सितम्बर 1965 से 25 जनवरी 1966 तक (दोनों दिन समेत)

(ख) बन सेना के लिए युद्ध क्षेत्र

- (i) 77 डिगरी पूर्व देशान्तर के साथ रेखा के पश्चिम के क्षेत्र जो जम्मू तथा कश्मीर राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सीमा तक (इसमें खालसी ट्रांजिट कैम्प तथा पूर्व की ओर 77 डिगरी देशान्तर तक के क्षेत्र सम्मिलित नहीं होंगे) और इसके बाद जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सीमा के साथ-साथ पठानकोट तक होगी इसमें पठानकोट सम्मिलित होगा—5 अगस्त 1965 से 23 नवम्बर 1965 तक (दोनों दिन समेत)
- (ii) पठानकोट-गुरदासपुर-बटाला-कपूरथला-फिरोजपुर-भटिन्डा को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र—जिसमें ये स्थान भी सम्मिलित होंगे—पंजाब तथा राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक और उसके बाद हनुमानगढ़-सूरतगढ़ तक—इन स्थानों को छोड़कर—6 नवम्बर, 1965 से 23 सितम्बर, 1965 तक (दोनों दिन समेत)।
- (iii) हनुमानगढ़-सूरतगढ़-अनूपगढ़-बीकानेर को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र (जिसमें ये स्थान सम्मिलित नहीं होंगे) और उसके बाद कोलायत-फलोदी-पोकरण-जैसलमेर-बाड़मेर-संजौर को जाने वाली सड़क के साथ-साथ राजस्थान-गुजरात की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक रेखा के पश्चिम का क्षेत्र (उपरोक्त स्थानों समेत)—6 सितम्बर, 1965 से 2 दिसम्बर, 1965 तक (दोनों दिन समेत)।

(ग) नौसेना के लिये पात्रता क्षेत्र

(i) जलयानों तथा वायुयानों के लिए

15 डिगरी तथा 25 डिगरी उत्तरी अक्षांतर और 60 डिगरी तथा 74 डिगरी पूर्वी देशान्तर के बीच अरब सागर का क्षेत्र—6 सितम्बर, 1965 से 25 जनवरी, 1966 तक (दोनों दिन समेत)।

(ii) तट आधारित नौसेना

स्थल सेना और वायुसेना के लिए निर्धारित पात्रता क्षेत्र तथा उन दोनों सेनाओं के लिए निर्धारित विधियों के साथ।

(iii) स्थल सेना तथा वायुसेना के साथ सम्बद्ध नौसैनिक, उस विशेष सेना के लिए जिसके साथ वे सम्बद्ध थे निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार, मेडल के पात्र होंगे।

(घ) वायु सेना के लिये पात्रता क्षेत्र

- (i) 77 डिगरी पूर्व देशान्तर के साथ रेखा के पश्चिम के क्षेत्र जो जम्मू तथा कश्मीर राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सीमा तक (इसमें खालसी ट्रांजिट कैम्प तथा पूर्व की ओर 77 डिगरी पूर्व देशान्तर रेखा तक के क्षेत्र सम्मिलित

नहीं होंगे) और उसके बाद जम्मू तथा कश्मीर की हद्द के साथ-साथ पठानकोट तक होगी इसमें पठानकोट भी सम्मिलित होगा, 5 अगस्त, 1965 से 25 जनवरी, 1966 तक (दोनों दिन समेत) ।

(ii) डलहौजी पालमपुर-मंडी-विलासपुर-कालका-अम्बा-ता-पटियाला-सिरमा-हनुमानगढ़-सूरतगढ़-अनूपगढ़-बीकानेर-जोधपुर-सिरोही-मांउर आबू को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र उपरोक्त स्थानों समेत—6 सितम्बर, 1965 से 25 जनवरी, 1966 तक (दोनों दिन समेत) ।

(iii) मांउर आबू को अहमदाबाद से जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम का क्षेत्र और अहमदाबाद को जामनगर से जोड़ने वाली रेखा के उत्तर के क्षेत्र उपरोक्त स्थानों समेत—6 सितम्बर, 1965 से 25 जनवरी, 1966 तक (दोनों दिन समेत) ।

(iv) गीतलदाह (एल जेड 4305) और लाठी टीला (आर एच 5024) के क्षेत्र, इन स्थानों समेत—6 सितम्बर, 1965 से 25 जनवरी, 1966 तक (दोनों दिन समेत) ।

(v) भारा, पालम, हिन्डन, बरेली, सरमाणा, बैरकपुर, बागडोमरा, क्लाईकुडा, हासीमारा और गोहाटी के हवाई अड्डे तथा जयपुर, रामपुरहट, क्लाईकुंडा, बागडोमरा, जफरपुर तथा दिल्ली में और इर्व-गिर्द संचियात्मक वायु रक्षा संस्थान—6 सितम्बर, 1965 से 25 जनवरी, 1966 तक (दोनों दिन समेत) ।

(क) बापुसेना के लिए युद्ध खंड

(i) 77 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ रेखा के पश्चिम के क्षेत्र जो जम्मू तथा कश्मीर राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सीमा तक (इसमें खालसी ट्रांजिट कैम्प तथा पूर्व की ओर 77 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र सम्मिलित नहीं होंगे) और उसके बाद जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सीमा के साथ-साथ पठानकोट तक होगी इसमें पठानकोट सम्मिलित होगा—5 अगस्त, 1965 से 23 सितम्बर, 1965 तक (दोनों दिन समेत) ।

(ii) पठानकोट-गुरदासपुर-बटाला-कपूरथला-फिरोजपुर-भटिन्डा को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र—जिसमें यह स्थान भी सम्मिलित होंगे—पंजाब तथा राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक और उसके बाद हनुमानगढ़-सूरतगढ़ तक—इन स्थानों को छोड़कर—6 सितम्बर, 1965 से 23 सितम्बर, 1965 तक (दोनों दिन समेत) ।

(iii) हनुमानगढ़-सूरतगढ़-अनूपगढ़-बीकानेर को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र (जिसमें ये स्थान सम्मिलित नहीं होंगे) और उसके बाद कोलायत-फलोदी-पोकरन-जैसलमेर-वाड़मेर-संचोर को जाने वाली सड़क के साथ-साथ राजस्थान-गुजरात की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक रेखाके पश्चिमके क्षेत्र (उपरोक्त स्थानों समेत),—6 मितम्बर, 1965 से 2 दिसम्बर, 1965 तक (दोनों दिन समेत) ।

(च) जीवन के अवस्त क्षेत्रों में कार्य करने वाले असैनिक स्त्री पुरुषों के लिए पात्रता क्षेत्र और युद्ध खंड

असैनिक व्यक्तियों के लिए वही पात्रता क्षेत्र और युद्ध खंड होंगे जो स्थल [सैनिकों] नौसैनिकों तथा वायुसैनिकों के लिए निर्धारित किये गये हैं ।

[F. No. PC F.3/40/65/D(Qr.).]

न० द० वुच, संयुक्त सचिव ।



